



इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
नवरत्न कम्पनी
(भारत सरकार का उपक्रम)
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
NAVRATNA COMPANY
(A Govt. of India Undertaking)



IRCON/SECY/STEX/124

6th November, 2025

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 बीएसई लिमिटेड लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001 Scrip code / ID: 541956 / IRCON	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block, Bandra –Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 Scrip Code: IRCON
---	--

Sub: Newspaper Publication - Public Notice to the shareholders regarding Opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares of Ircon International Limited.

Ref.: Intimation under SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025

Dear Sir/ Madam,

A copy of Newspaper clippings of the Public Notice published in Financial Express (English Language) and Jansatta (Hindi Language), on 6th November, 2025, in respect of the opening of Special Window for Re-lodgement of transfer requests of physical shares of Ircon International Limited is enclosed herewith, for your information and record.

कृपया उपरोक्त जानकारी रिकार्ड पर लें।

Thankyou/धन्यवाद,
Yours faithfully/भवदीया,

(Pratibha Aggarwal)/ (प्रतिभा अग्रवाल)
Company Secretary & Compliance Officer/ कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
Membership No./ सदस्यता क्र.: F8874

A PUBLIC INVIT TO FOLLOW

Next NHAI InvIT by month-end, to target ₹8,000-crore mop-up

MUKESH JAGOTA
New Delhi, November 5

THE BIDDING PROCESS for the fifth round of monetisation through infrastructure investment trust (InvIT) route by the National Highways Authority of India (NHA) will start by the end of this month.

The process may yield ₹7,000-8,000 crore to the NHA.

Following the completion of this round, the work will begin for another round of monetisation through InvIT mode but this time through public InvIT.

The fifth round will be conducted through private InvIT — the National Highways Infrastructure Trust (NHIT) — sponsored by NHA.

The two biggest investors in the NHIT are Canadian funds — Ontario Teachers Pension Plan Board and Canadian Pension Plan Investment Board Private Holdings — holding 25% units each.

Unit holders other than NHA and Canadian funds are mutual funds, pension funds,

GROWTH PATH

Monetisation through InvIT

Length (km) Value realised (₹ cr)

Total: 2,345

890 821

389 247

Total: 43,638

7,350 2,850 15,700 17,738

FY22 FY23 FY24 FY25

Govt panel working on new SEZ norms for exporters

RAVI DUTTA MISHRA
New Delhi, November 5

A GOVERNMENT PANEL, comprising officials from the commerce and industry ministry, NITI Aayog, as well as exporters, are working on new Special Economic Zones (SEZs) norms aimed at boosting manufacturing and helping exporters leverage the domestic market amid steep US tariffs that have hurt production, a person aware of the development told *The Indian Express*.

This comes after multiple units in the SEZs, particularly those which entirely cater to the US market, have written to the commerce ministry seeking that they be de-notified due to sudden tariff pressure that has left exports uncompetitive in the US market.

However, exporters, till now, have tried to hold on to the US market even by bearing losses. SEZs enjoy various tax benefits, including duty-free imports and domestic procurement.

Official data showed that India's exports from SEZs in FY25 stood at \$172 billion from nearly 276 units in the country, and the domestic sales comprised 2% of the

total production. However, Indian SEZs have lagged over the years, especially compared with Chinese special economic zones that transformed manufacturing in the neighbouring country.

Against the backdrop of the US tariffs, exporters have been seeking a 'reverse job work' policy that would allow units in the SEZ to perform work for the domestic market.

The long-standing demand by exporters to allow reverse job work is also aimed at improving the efficiency of the SEZ units, as exporters have argued that due to the seasonality in export demand, labour and equipment capacity in SEZs are often not optimally utilised.

"Reverse job work should

Debentures (NCD). The debentures have performed well in the market and are giving an effective return of 8.01%.

Details of the public InvIT are being worked out and it is expected that its sponsor too will be NHA. Other anchor investors and details are being worked out by the government.

Through public InvIT, the government wants to give retail investors access to infrastructure assets that provide reliable returns over a long period of time. It will also develop a competitive environment in the InvIT market, and mitigate the risk of a limited investor base.

So far 2,345 km of road assets have been monetised through InvIT to raise ₹43,638 crore. In the fifth round that will begin in the next few weeks, NHA has identified nine road stretches with a total length of over ₹550 km for monetisation. The road assets that will be monetised are in Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal.

Structural challenges impacting MSME productivity: Deloitte

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 5

MICRO, SMALL AND medium enterprises (MSMEs) in India are facing structural challenges like limited access to formal credit, which is impairing their productivity, but their digital readiness remains a bright spot, a Deloitte India report said on Wednesday.

MSMEs in India contribute nearly 30% to GDP, and account for 45% of exports and provide livelihoods to more than 240 million people.

The study shows that despite exhibiting a significantly higher degree of digital readiness than OECD peers, Indian MSMEs operate at just 18% of large-enterprise productivity compared with 45-70% in OECD economies. This gap limits their competitiveness compared to global counterparts.

Deloitte India economist Rumki Majumdar said the MSME space is marred by several structural challenges, including limited access to formal credit, outdated technology, regulatory complexity and

infrastructure bottlenecks.

The credit gap is estimated at ₹30 lakh crore of total demand. It is higher for services (27%) and women-owned MSMEs (35%), with their severe implications on scaling opportunities.

The intensity of challenges becomes more pronounced in non-metro regions, where these enterprises are concentrated, she added.

According to 'Deloitte's MSME challenge index', MSMEs in sectors such as readymade garments face severe credit constraints because of the high perceived risks associated with the sector, characterised by low margins and intense global competition, making their products highly substitutable.

Time for India to have gold policy: Study

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 5

AS GOLD PRICES soar to new heights, a study on Wednesday made a case for a comprehensive policy for the yellow metal as India is one of the world's largest bullion markets, influenced by a cultural affinity for the shiny metal and investment demand.

Gold price has been reaching new heights driven by geo-political tensions, economic uncertainty, and a weakening US dollar, said the report titled 'Coming Of (A Turbulent) Age: The Great Global Gold Rush' by the State Bank of India's Economic Research Department.

India-Japan partnership enhances stability in Indo-Pacific: Jaishankar

THE INDIA-JAPAN PARTNERSHIP enhances the strategic stability in the Indo-Pacific region and contributes to economic growth at the global level, External Affairs Minister S Jaishankar said on Wednesday. Jaishankar said maintaining a "free and open" Indo-Pacific is a stronger imperative but also a more complex challenge.

ONGC
ONGC
ONGC
ONGC

Regd. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
CIN: L74899DL1993GOI054155
Website: www.ongcindia.com, E-mail: secretary@ongc.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

NOTICE is hereby given that the equity Share Certificate(s) of the following shareholder(s) have been reported as lost/ misplaced and they have applied for issuance of duplicate Share Certificate(s):

Name of Share Holder	Folio No.	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive No.
Ronjoy Bairagi & Deepsa Bairagi	89070	1836 1836 1836 5508	1045 476206 973372	170797-172632 4277915857-4277917692 8556781162-8556782997

Any person(s) who has/have any claim in respect of the said certificate(s) can lodge such claim with the supporting documents with the Company within 7 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained by the Company.

Further, public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above-mentioned share certificate(s). Any person dealing with the above share certificate(s) shall be doing so, solely at his/her risk as to costs and consequences, the Company shall in no way be held responsible for such dealing(s).

For Oil and Natural Gas Corporation Ltd.
Sd/-
(Shashi Bhushan Singh)
Compliance Officer

New Delhi
04.11.2025

IRCON INTERNATIONAL LTD.
NAVRATNA COMPANY
(A Govt. of India Undertaking)
Regd. Office : C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017, INDIA
Tel. No. : +91-11-26530266 Fax: +91-11-26854000, Web: www.ircon.org, E-mail: investors@ircon.org
CIN : L45203DL1976GOI008171

3rd REMINDER NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In reference to our newspaper advertisement published on 15th September, 2025, it is again brought to the notice of Shareholders that in terms of SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PI/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a special window has been opened for re-lodgement of transfer requests of Physical Shares which is applicable to the Transfer Deeds lodged prior to 1st April, 2019 that were rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/process or otherwise. The re-lodgement window is already open from 7th July, 2025 and shall remain open till 6th January, 2026 and all such transfers shall be processed and would be credited to the transferee(s) in demat mode only.

Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, Contact: +91-11-42541234, +91-11-42541957, E-mail id: rta@alankit.com

100-DAYS CAMPAIGN- "SAKSHAM NIVESHAK"

The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), under the MCA has launched a nationwide 100-days campaign titled "Saksham Niveshak", from 28th July, 2025 to 6th November, 2025, for enhancing investor awareness and facilitating the recovery of unclaimed dividends and shares. The shareholders of the Company are requested to update their KYC details, e-mail addresses, bank mandates, and contact information, including registration of email addresses, within the campaign period to ensure timely and effective communication from the Company. This will enable the Company to make future payments of dividends to the rightful claimant directly, avoiding transfer of any unclaimed amount to IEPFA Authority. Shareholders are requested to update their details including KYC in the manner given hereunder:

- Shares held in physical form-** By submitting Investor Service Request Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13 or SH-14) supported by self-attested copies of PAN, Aadhaar, latest Address proof and original cancelled cheque of bank account, through any of the following modes:
 - By Post:** Send self-attested, dated physical copies of documents/forms to the RTA of the Company i.e., Alankit Assignments Limited, 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055.
 - By Email:** From your registered E-mail ID, with digitally signed documents to: rta@alankit.comShareholder can download these forms from the website of RTA <https://alankitassignments.com/investor-charter/>
- Shares in demat form-** By contacting their respective Depository Participants (DPs) to update their KYC details and intimating the updated details to the RTA of the Company.

In case of any queries or further assistance, shareholders may reach out to the Company or RTA at the address mentioned above.

For IRCON International Limited
Sd/-
Pratibha Aggarwal
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 04th November, 2025

BHARAT SEATS LIMITED
CIN: L34300DL1986PLC023540
Regd. Office : 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi- 110070
WEBSITE: www.bharatseats.com; E-mail: seats@bharatseats.net. Phone: +91 9643339870-74

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025
(Rs. in lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	46,129.81	42,812.79	29,137.47	88,942.60	59,117.50	129,241.04
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,329.01	1,234.22	959.18	2,563.23	1,848.04	4,389.61
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,329.01	1,234.22	959.18	2,563.23	1,848.04	4,389.61
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	990.18	917.59	710.37	1,907.77	1,371.84	3,270.03
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	991.55	918.96	706.14	1,910.51	1,363.43	3,275.03
6	Equity Share Capital	1,256.00	1,256.00	628.00	1,256.00	628.00	1,256.00
7	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the year	-	-	-	-	-	18,199.27
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (In Rs.)						
	(a) Basic (Rs.)	1.58	1.46	1.13	3.04	2.18	5.21
	(b) Diluted (Rs.)	1.58	1.46	1.13	3.04	2.18	5.21

Additional Information on Financials Results:

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Net Worth (in Lakhs)	20,674.98	20,374.23	17,543.67	20,674.98	17,543.67	19,455.27
2	Outstanding Debt (in Lakhs)	5,997.41	5,975.49	9,452.23	5,997.41	9,452.23	7,993.35
3	Debt Equity Ratio (in times)	0.64	0.65	0.96	0.64	0.96	0.78
4	Debt Service Coverage Ratio (in times)	3.32	3.31	3.91	3.31	3.85	2.39
5	Interest Service Coverage Ratio (in times)	8.48	9.10	8.09	8.76	7.96	8.87

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s), www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website 'www.bharatseats.com'.

b) The above financial results of Bharat Seats Limited ("the Company") have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

c) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 5th November, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(ROHIT RELAN)
Chairman and Managing Director

Place: Gurugram
Date: November 05, 2025

IGI
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA) LIMITED
CIN: L46591MH1999PLC118476
Registered Office: 702, 7th Floor, The Capital, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051, Maharashtra, India.
Email: investor.relations@igi.org | Website: www.igi.org

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025
(Amounts in INR millions, unless otherwise stated)

Particulars	Standalone					
	Quarter ended September 30, 2025	Corresponding quarter ended June 30, 2025	Quarter ended September 30, 2024	Nine months ended September 30, 2025	Nine months ended September 30, 2024	Year ended December 31, 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	2523.50	2,486.41	1,940.44	7,453.78	6,183.79	8,165.23
Net Profit for the period/ year (before tax)	1,824.58	1,807.88	1,433.40	5,508.82	4,430.38	5,868.27
Net Profit for the period/ year (after tax)	1,391.27	1,374.80	1,078.07	4,157.50	3,294.26	4,392.49
Total Comprehensive income for the period/ year (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	1,389.61	1,371.46	1,062.06	4,149.10	3,265.12	4,378.89
Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2 per share)	864.32	864.32	793.57	864.32	793.57	864.32
Reserves excluding revaluation reserve as at Balance Sheet date						21,010.56
Earning per share:						
1. Basic (in ₹) (not annualised)	3.22	3.18	2.72	9.62	8.31	11.04
2. Diluted (in ₹) (not annualised)	3.11	3.06	2.72	9.24	8.31	10.57

(Amounts in INR millions, unless otherwise stated)

Particulars	Consolidate					
	Quarter ended September 30, 2025	Corresponding quarter ended June 30, 2025	Quarter ended September 30, 2024	Nine months ended September 30, 2025	Nine months ended September 30, 2024	Year ended December 31, 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	3,162.08	3,146.13	2,586.95	9,440.36	8,116.18	10,884.92
Net Profit for the period/ year (before tax)	1,754.85	1,749.69	1,474.56	5,419.27	4,325.41	5,853.20
Net Profit for the period/ year (after tax)	1,297.93	1,265.32	1,095.99	3,970.51	3,135.15	4,272.90
Total Comprehensive income for the period/ year (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	1,375.39	1,341.76	1,249.61	4,169.03	3,213.24	4,336.18
Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2 per share)	864.32	864.32	793.57	864.32	793.57	864.32
Reserves excluding revaluation reserve as at Balance Sheet date						9,763.17
Earning per share:						
1. Basic (in ₹) (not annualised)	3.00	2.92	2.76	9.19	7.90	10.74
2. Diluted (in ₹) (not annualised)	2.91	2.81	2.76	8.85	7.90	10.28

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Reports) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ nine months Financial Results are available on Stock Exchange websites.
- The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended September 30, 2025 have been duly reviewed by Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors at its meeting held on November 5, 2025
- Figures for the previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to conform to current periods classification.

November 5, 2025
Mumbai

By order of the Board
Sd/-
Tehmasp Printer
(Managing Director & CEO)

नगालैंड में बास्केटबाल खिलाड़ी की हत्या के आरोप में चाचा गिरफ्तार

कोहिमा, 5 नवंबर (भाषा)।

नगालैंड पुलिस ने राज्य स्तरीय बास्केटबाल खिलाड़ी विहोझोनू जाओ की हत्या का मामला सुलझाने का दावा करते हुए इस मामले में खिलाड़ी के चाचा को गिरफ्तार किया है।

कोहिमा के पुलिस अधीक्षक क्रोडी रेत्सो ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान सैमुअल जाओ (31) के रूप में हुई है, जिसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि 25 अक्टूबर को 22 वर्षीय खिलाड़ी विहोझोनू का शव ओल्ड मिनिस्टर्स हिल स्थित उसके घर के बाहर संदिग्ध हालात में मिला था। इसके बाद दक्षिण थाने की पुलिस टीम ने घटनास्थल की घेराबंदी कर फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद से जांच शुरू की। खिलाड़ी के दूसरे चाचा नेवेथेओ जो आओ की शिकायत पर कोहिमा महिला थाने में मामला दर्ज किया गया।

पूर्णिमा में जद (एकी) नेता के भाई, भाभी और भतीजी मृत पाए गए

पूर्णिमा, 5 नवंबर (भाषा)।

बिहार के पूर्णिमा जिले में जनता दल (एकी) ‘जद (एकी)’ के एक नेता के बड़े भाई, भाभी और भतीजी घर में मृत पाए गए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतकों के शव मंगलवार रात के-हट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कालोनी में स्थित उनके आवास से बरामद किए गए।

पूर्णिमा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) ज्योति शंकर ने बताया कि मृतकों की पहचान नवीन कुशवाहा (52), उनकी पत्नी माला देवी (48) और बेटी तनु प्रिया (23) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक नवीन कुशवाहा जद (एकी) के स्थानीय नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई थे। एसडीपीओ ने कहा, ‘घर में तीन शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पूर्णिमा

कंपनियों की कुर्क संपत्तियां घर खरीदारों को वापस की जाएंगी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 5 नवंबर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि धन शोधन निरोधक कानून के तहत ईडी द्वारा कुर्क की गई दिवालिया कंपनियों और

ईडी व भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड ने नए मानक बनाए।

एक परिपत्र जारी किया। यह कदम ईडी और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अधिकारियों के बीच हुई ‘कई दौर’ की समन्वय बैठकों के बाद उठाया गया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अब से दिवाला पेशेवर विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एक मानक शपथपत्र दाखिल करके, ताकि ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों को मुक्त कर प्रभावित पक्षों को लौटाया जा सके। अब तक कई मामलों में दिवालिया कंपनियों की संपत्तियां पीएमएलए के तहत जब्त थीं, जिससे उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में उपयोग करना कठिन था। इसे ध्यान में रखते हुए ईडी और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने एक मानक तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत जब्त संपत्तियों की बहाली की जा सकेगी। ईडी के अनुसार, यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि बहाली की गई संपत्तियां का उपयोग केवल त्राघदातओं के हित में हो, किसी भी स्थिति में आरोपी या प्रवर्तक को कोई लाभ न मिले और पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता व अनुपालन बना रहे। ईडी ने कहा कि इस कदम से दिवाला समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी और अवलतों में लंबित कई मुकदमों का निपटारा भी सरल होगा।

ओड़ीशा : खुर्दा में सीमा विवाद को लेकर भड़की हिंसा, कई घायल

भुवनेश्वर, 5 नवंबर (भाषा)।

ओड़ीशा के खुर्दा जिले में दो गांवों के निवासियों के बीच बुधवार को सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए और तीन से चार दुकानों में आगजनी की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

यह घटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा हटाए जाने के कुछ दिन बाद हुई। इस मुद्दे पर पहले भी हिंसा हो चुकी थी, जिसके बाद इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई थी। खुर्दा के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शर्मा ने बताया कि आज सुबह बाघमरी थाना क्षेत्र के ओस्तापुर और कोटपल्ला गांवों के निवासियों के बीच पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान तीन से चार दुकानों में आग भी लगाई गई।

स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त हो

रक्षा बलों में आरक्षण की राहुल गांधी की मांग पर राजनाथ सिंह ने कहा देश में अराजकता फैलाने की कोशिश

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 5 नवंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘रक्षा बलों में आरक्षण की मांग कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।’ सिंह ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के पास अब ‘तालाब में कूदने’ के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बिना किसी आधार के निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के जमुई जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि राहुल को क्या हो गया है? वे रक्षा बलों में आरक्षण की बात उठा रहे हैं। वे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर



रहे हैं। हमारे सशस्त्र बल इन सब चीजों से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सैनिकों का केवल एक धर्म है। ‘सैन्य धर्म’। भाजपा आरक्षण के पक्ष में है। हमने गरीबों और समाज के पात्र वर्गों को आरक्षण दिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार में चुनावी सभाओं के

रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी आधार के निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों पर निशाना साध रहे हैं।

दौरान दावा किया था कि निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, नौकरशाही और सशस्त्र बलों में पिछड़ी जातियों, आदिवासी समुदायों और अल्पसंख्यकों का बहुत कम प्रतिनिधित्व है, जबकि 10 फीसद आबादी इन संस्थानों पर नियंत्रण रखती है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि ‘देश चलाना बच्चों का खेल नहीं है।’

उन्होंने पुलवामा जैसे आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई आपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि आपरेशन सिंदूर को रोक़ा गया है, ख़तम नहीं किया गया। अगर आतंकी भारत पर फिर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों के आधार पर मारा। भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया।

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated October 10, 2025 (the “**Letter of Offer**” or “**LOF**”) filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited (“**BSE**”) and National Stock Exchange of India Limited (“**NSE**”) and together with BSE, (“**Stock Exchanges**”) and the Securities and Exchange Board of India (“**SEBI**”)



Please scan this QR code to view Letter of Offer



Utkarsh Small Finance Bank Aapki Ummeed Ka Khaata (A Scheduled Commercial Bank)

Registered and Corporate Office: Utkarsh Tower, NH - 31 (Airport Road),
Sehmalpur, Kazi Sarai, Harhua, Varanasi 221 105, Uttar Pradesh, India.
Tel: +91 542 660 5555 | Contact Person: Muthiah Ganapathy, Company Secretary and Compliance Officer |
Email: shareholders@utkarsh.bank | Website: www.utkarsh.bank | Corporate Identity Number: L65992UP2016PLC082804

PROMOTER OF OUR BANK: UTKARSH COREINVEST LIMITED

ISSUE OF 67.79, 13,784 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR BANK (THE “**RIGHTS EQUITY SHARES**”) FOR CASH AT A PRICE OF ₹14 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹4 PER RIGHTS EQUITY SHARE) (“**ISSUE PRICE**”) AGGREGATING TO ₹949.08 CRORE ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR BANK IN THE RATIO OF 8 (EIGHT) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 13 (THIRTEEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON OCTOBER 14, 2025 (“**RECORD DATE**”) (THE “**ISSUE**”). FOR FURTHER DETAILS, SEE “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE 79.

BASIS OF ALLOTMENT

We are immensely thankful to all our Shareholders and Investors for their response to the Issue which opened for subscription on FRIDAY, OCTOBER 24, 2025 and closed on MONDAY, NOVEMBER 3, 2025 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was TUESDAY, OCTOBER 28, 2025.

In the Rights Issue, we received 31,480 Applications for 926,464,683 Rights Equity Shares through Application Supported by Blocked Amount (“**ASBA**”). 1,482 Applications for 3,839,062 Rights Equity Shares were rejected, due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 29,998 for 922,625,621 Rights Equity Shares (excluding the technical rejection cases), which was 136.10 % of the Issue Size. The Applications for 146 cases for 675,459 Additional Rights Equity Shares were rejected where the shareholder had partly renounced and applied for Additional Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on November 5, 2025 by the Bank in consultation with NSE, the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue. The Capital Structuring & Fund Raise Committee has on November 5, 2025, approved the allotment of 677,913,784 Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid Applications after technical rejections have been considered for allotment. Further, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We confirm that all valid applications have been considered for Allotment. The Issue is in compliance to ensure compliance with the minimum subscription requirements in accordance with Regulation 86 (1) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended from time to time (“**SEBI ICDR Regulations**”).

1. Information regarding Total Applications received (including ASBA applications):

Category	Applications Received		Rights Equity Shares applied for				Rights Equity Shares Allotted			
	Number of Applications	%	Number of Equity Shares	Value (₹) in Crore	%		Number of Equity Shares	Value (₹) in Crore	%	
Eligible Equity Shareholders *	30,092	95.59	264,527,583	370.34	28.55		173,106,783	242.35	25.54	
Specific Investors **	38	0.12	466,887,127	653.64	50.39		446,678,556	625.35	65.89	
Other Renouncess ***	1,350	4.29	195,049,973	273.07	21.05		58,128,445	81.38	8.57	
Total	31,480	100.00	926,464,683	1,297.05	100.00		677,913,784	949.08	100.00	

2. The break-up of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	Number of Rights Equity Shares allotted against the Rights Entitlements (A)	No. of Rights Equity Shares allotted against Additional Rights Equity Shares applied for (B)	Total Rights Equity Shares allotted (C)= A+B
Eligible Equity Shareholders *	28,610	260,688,521	104,203,291	68,903,492	173,106,783
Specific Investors **	38	466,887,127	446,678,556	0	446,678,556
Other Renouncess ***	1,350	195,049,973	58,128,445	0	58,128,445
Total	29,998	922,625,621	609,010,292	68,903,492	677,913,784

*The Investors (identified based on PAN), excluding Specific Investors, whose names appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the Record Date. Includes application by such Eligible Equity Shareholders towards (i) rights entitlement held by them and/or (ii) any additional equity shares applied in the Issue.

** Specific Investors whose names were disclosed to the Stock Exchanges vide intimation dated October 24, 2025 pursuant to Regulation 77(B)(2) Of SEBI ICDR Regulations. Includes application by such Specific Investors towards (i) the rights entitlement renounced in their favour by the Promoter and/or (ii) any additional equity shares applied in the Issue. However, the Allotment towards Additional Rights Equity Shares to Specific Investors have not been considered under the “Specific Investors” category is instead considered under Eligible Equity Shareholders category.

*** Investors (excluding Specific Investors covered above) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the Record Date, but who hold the Rights Entitlement as on the Issue Closing Date i.e., November 3, 2025. Includes application by such Renouncers towards (i) rights entitlement held by them and/or (ii) any additional equity shares applied in the Issue.

A total of 42 investors were identified as Specific Investors, whose names were published in the pre-issue advertisement on October 17, 2025. Out of these 42 investors, 4 investors were unable to apply in compliance with Regulation 77(B)(2) of SEBI ICDR Regulations, due to technical reasons and accordingly, allotment has been made to 38 investors under the “Specific Investors” category. The residual Applications received which were not in compliance with Regulation 77(B)(2) of SEBI ICDR Regulations have been included in the Renouncers/ Eligible Equity Shareholders category, as applicable.

The instructions for unblocking of funds were issued to Self-Certified Syndicate Banks (SCSBs) and the listing applications were filed with both the BSE and NSE on November 5, 2025. The dispatch of Allotment Advice cum Unblocking Intimation to the Investors, as applicable, will be completed on or about November 6, 2025 after completion of corporate action for demat credit of Rights Equity Shares into the respective demat accounts of the successful allottees on or about November 6, 2025. The trading in fully paid-up Rights Equity Shares issued in the Rights Issue is expected to commence on or about November 7, 2025, subject to receipt of trading permissions from BSE and NSE. The equity shares shall be traded under the same ISIN INE735W01017 as the existing Equity Shares. Further, the Bank shall take steps to request for extinguishment of Rights Entitlements to the depositories in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: BSE has given vide its letter dated October 7, 2025, permission to the Bank to use the Exchange’s name in this Letter of Offer as the Stock Exchange on which this Bank’s securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized the Letter of Offer for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Bank. The Exchange does not in any manner:

- Warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer; or
- Warrant that this Bank’s securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; or
- Take any responsibility for the financial or other soundness of this Bank its promoter, its management or any scheme or project of this Bank; and it should not for any reason be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by the Exchange. Every person who desires to apply for or otherwise acquires any securities of this Bank may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription/acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or for any other reason whatsoever.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): As required, a copy of the Letter Offer has been submitted to the NSE. It has given vide its letter Ref. No. NSE/LIST/ 51194 dated October 6, 2025, permission to the Issuer to use the Exchange’s name in the Letter of Offer as one of the Stock Exchanges on which this Issuer’s securities have been listed. The Exchange has scrutinized the Letter of Offer for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Issuer.

It is to be distinctly understood that the aforesaid permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer; nor does it warrant that this Issuer’s securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its Promoter, its management or any scheme or project of this Issuer.

Every person who desires to apply for or otherwise acquire any securities of this Issuer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription /acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

The investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any Post- Issue related matters All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

REGISTRAR TO THE ISSUE



Kfin Technologies Limited:
Selenium Tower-B, Plot no. 31 and 32 S Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Hyderabad, Rangareddi 500 032, Telangana, India
E-mail: utkarshbank.rights@kfintech.com
Website: www.kfintech.com
Investor grievance ID: eirward.risg@kfintech.com
Contact person: M Murali Krishna
SEBI Registration No.: INR000000221

ADVISOR TO THE ISSUE



DAM Capital Advisors Limited
Altitude 2202, Level 22, Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai, India - 400018
Email id: utkarshrights@damcapital.in
Website: www.damcapital.in
Contact Person: Aanchal Wagle/Arpi Chheda
SEBI Registration No: MB/INM000011336

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE BANK.

Date: November 5, 2025
Place: Varanasi, Uttar Pradesh

For Utkarsh Small Finance Bank Limited
On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Muthiah Ganapathy
Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer: The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and website of SEBI at www.sebi.gov.in. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section “Risk Factors” beginning on page 19 of the Letter of Offer.

ongc		ओएनजीसी	ongc	ongc	ongc
ENERGY: Now AND Next		ongc	ongc	ongc	ENERGY: Now AND Next
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या 29-4बी, नेशनल मटेरियल पार्क, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 CIN: L74899DL1993GO054155 वेबसाइट: www.ongcindia.com, ई-मेल: secretariat@ongc.co.in					
शेयर सर्टिफिकेट खोने की सूचना					
एनएड द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शेयरधारकों के इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट (सर्टिफिकेट्स) को गप/गुम हो गए प्रतिवेदित किए गए हैं और उन्होंने दुर्लोकित शेयर सर्टिफिकेट (सर्टिफिकेट्स) जारी करने हेतु आवेदन किया है:					
शेयर धारक का नाम	फोतोशेयर नंबर	शेयर संख्या	शेयर सर्टिफिकेट नंबर	विशिष्ट संख्या	
श्रीनंदा ईरानी एवं दीपा देवानी	89070	1836	1045	170797-172632	
		1836	476206	4277915857-4277917692	
		1836	973372	8556781162-8556782997	
		5508			

कोई भी व्यक्ति (व्यक्तिगत), जो उक्त सर्टिफिकेट्स के संबंध में दावेदार है, यह अपना दावा समर्थन दस्तावेजों के साथ कम्पनी में इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके पश्चात कम्पनी द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एनएड द्वारा संरक्षणावली को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्तित शेयर सर्टिफिकेट (सर्टिफिकेट्स) के संबंध में कोई दावा अव्यावहारिक नहीं करे। उपर्युक्तित शेयर सर्टिफिकेट (सर्टिफिकेट्स) के संबंध में संरक्षणावली करने वाला व्यक्ति लगातार और परंपरागत रूप से एकमात्र रूप से अपनी जॉइंटिंग पर एंटर करेगा, कम्पनी ऐसे संरक्षणावली के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगी।

नई दिल्ली
04.11.2025

हस्ता /
(राशि भूषण सिंह)
अनुपालन अधिकारी

कर्मचारी को बिचकी के बारे में सूचित करने हेतु नोटिस (30 दिन का नोटिस)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 6(2)/6(6)
दिनांक: 16-10-2025

सेवा में,
कर्मचारी: सुशीला वीणा गुप्ता
(I) फलेट नंबर 002 (यू. तल), सनशाइन एवेन्यू, मेन मधुरा रोड (एनएच-2), मानव रचना बडखल मोड मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर 28, फरीदाबाद हरियाणा-122001

अन्य पता (II) एच नंबर 1195, सेक्टर 28, फरीदाबाद-121001 सह-आवेदक (I) श्री ललित गुप्ता
फलेट नंबर 002 (यू. तल), सनशाइन एवेन्यू, मेन मधुरा रोड (एनएच-2), मानव रचना बडखल मोड मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर 28, फरीदाबाद हरियाणा-122001

अन्य पता (II) एच नंबर 1195, सेक्टर 28, फरीदाबाद-121001
सह-आवेदक
श्री सुभाष चंद गुप्ता मकान नंबर 1195, सेक्टर 28, फरीदाबाद-121001

विषय – विषय आसियस का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अखीन बैंक को देय राशि की वसूली के लिए श्रीमती वीणा गुप्ता की संपत्ति की वसूली।

सुनिश्चन बैंक ऑफ इंडिया, आसियस पर्सनल शाखा, एम-35, प्रथम तल, आउटर सर्किल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, प्रतिभूति लेनदार में विषय आसियस का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अखीन दिनांक 20-05-2021 को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें आपसे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। सूचित आप निर्धारित अवधि के भीतर उक्त सूचना का अनुपालन करने में विफल रहे, इसलिए प्राथमिक अधिकारी ने 25-03-2022 को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6/8 के अखीन अधिनियम की धारा 13(4) के अखीन संपत्ति का संकोचित कब्जा ले लिया है।

प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा लेने के बादजुद-आपने बैंक की बकाया राशि नहीं चुकाई है। अतएव, इस सूचना की प्रतिलिपि को 30 दिन के बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से सार्वजनिक ई-नौलानी आसियस करके नीचे वर्णित संपत्ति बेचनी आवश्यक हो गई है।

ई-नौलानी की विधि एवं संपत्ति का सुरक्षित मूल्यांकन सेवा प्रदाता का विवरण, जिसके लिए ई-नौलानी आसियस की जानी है, आपको अवगत से सूचित किया जाएगा। इसलिए, यदि आप किसी सूचना के प्रकाशन की विधि से पहले बैंक की बकाया राशि, अनुवृत्ति राशि, बैंक द्वारा बचन की गई लागत, शुल्क और अन्य राशि चुका देते हैं, तो संपत्ति की वसूली के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और आप अधिनियम की धारा 13 (8) में निर्धारित अनुसार अपनी संपत्ति को चुका सकते हैं।

अवधि संपत्ति का वर्णन
फलेट नंबर 002 (यू. तल), सुपर एरिया 2098 वॉलेंट, सनशाइन एवेन्यू, 15/7, मेन मधुरा रोड (एनएच-2), सेक्टर 28, फरीदाबाद हरियाणा-122001
चौहदरी: पूर्व – खुला आकाश, पश्चिम – आम रास्ता, दक्षिण – लिफ्ट, उत्तर – खुला आकाश

दिनांक: 16-10-2025
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सुनिश्चन बैंक ऑफ इंडिया

इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
नवतल कम्पनी
(भारत सरकार का उपकर्म)

पंजीकृत कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट रोड, राकोन, नई दिल्ली-110017, भारत
टेलीफोन नं.: +91-11-26530266, फ़ैक्स: +91-11-26534006, वेबसाइट: www.ircon.org, ई-मेल: investors@ircon.org
CIN: L45203DL1976GO008171

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए

शेयरधारकों को तीसरी अनुसूचक सूचना
15 सितंबर, 2025 को प्रकाशित हमारे समाचार पत्र विज्ञापन के संदर्भ में, शेयरधारकों के ध्यान में पुनः लाया जाता है कि सभी परिपत्र से SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/PI/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष तिथि खोली गई है, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले दाखिल किए गए उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू है जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकार/वापस कर दिया गया/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

पुनः प्रस्तुत करने की विधि 1 जुलाई, 2025 से खुली हुई है और 6 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी और इसे सभी हस्तांतरणों को संसाधित करके केवल अंतिम भंड